

10/7/25

August Month Portion and Notes

Portion:

कविता : 7. सीखो [1-8 पंक्तियाँ कंठस्थ]

गिनती : 16-30 लिखित

निबंध : दीपावली

गतिविधि : किन्हीं पाँच त्योहारों के चित्र चिपकाकर हिंदी में नाम लिखिए।

NOTES :

कविता : 7. सीखो

पूर्वों से नित हँसना सीखो ,

मौनों से नित गाना ।

तरु की झुकी डालियों से

नित सीखो शीश झुकाना ।

मध्नी से सीखो देश के लिए ,

तड़प तड़प कर मरना ।

लता तथा पेड़ों से सीखो

सबको गले लगाना ।

I अंग्रेजी में अर्थ लिखिए :-

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. मछली - fish | 6. पेड़ - tree |
| 2. देश - Country | 7. सीखो - learn |
| 3. चँदा - Moon | 8. नित - always |
| 4. तम - Darkness | 9. सब - all |
| 5. किरण - Ray | |

II खाली जगह भरिए :-

1. फूलों से हमेशा हँसना सीखें।
2. भौंसे से नित गाना सीखो।
3. चँदा की किरणों से शीतल बरसाना सीखो।
4. मछली से देश के लिए तड़प-तड़प कर मरना सीखो।
5. दीपक से अन्धेरा दूर करना सीखो।

III अन्ते अर्थ वाले शब्द लिखिए :-

1. दिन x रात

2. अमृत x विष

3. प्रेम x घृणा

4. हँसना x रोना

5. जीना x मरना

6. दिन x रात

7. नित x कभी-कभी

8. दूर x पास

IV 'हाँ' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए :-

1. पूरों से हमेशा हँसना सीखो। हाँ

2. भौंरों से रोना सीखो। नहीं

3. पैड़ और लता से हँसना सीखो। नहीं

4. दीपक से अन्धेरा दूर करना सीखो। हाँ

5. पैड़ की डालियों से विनय से रहना सीखना है। हाँ

उ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

1. फूलों से क्या सीखना चाहिए ?

उत्तर: फूलों से निता हुआ सीखो ।

2. मछली से क्या सीखना चाहिए ?

उत्तर: मछली से देश के लिए तड़प-तड़प कर मरना सीखो ।

3. भौंरों से क्या सीखना चाहिए ?

उत्तर: भौंरों से निता गाना सीखो ।

4. लता तथा पेड़ों से क्या सीखना चाहिए ?

उत्तर: लता तथा पेड़ों से मिल जुलकर रहना सीखना चाहिए ।

5. दीपक से हमें क्या सीखना चाहिए ?

उत्तर: दीपक से अंधेरा दूर करना और प्रकाश फैलाना सीखना चाहिए ।

गिनती [16-30]

सोलह - 16

इक्कीस - 21

सत्रह - 17

बाईस - 22

अट्ठाइस - 18

तेईस - 23

उननीस - 19

चौबीस - 24

बीस - 20

पच्चीस - 25

छब्बीस - 26

सत्ताइस - 27

अट्ठाईस - 28

उनतीस - 29

तीस - 30

निबंध : दीपावली

* दीपावली हिन्दुओं का प्रमुख त्यौहार है।

* यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है।

* इस दिन बच्चे नये कपड़े पहनकर पटाखे जलाते हैं।

* व्यापारी लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं।

* दीपावली स्वच्छता का त्योहार है।

* इस दिन कीड़े मकौड़े, मच्छर आदि कीटाणु दीपों के प्रकाश में मर जाते हैं।

* यह त्योहार बच्चों के लिए बहुत खुशी का त्योहार है।

[Complete all the book back exercises

in the text book]